



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1013) पटना, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

3 सितम्बर 2015

सं0 3/एम0-32/2013सा0प्र0-13166—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प, ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। संकल्प की अनुसूची में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्न पदों को संकल्प, ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है—

क्रम सं0	विभाग का नाम	संकल्प ज्ञापांक- 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पदाधिकारी
1.	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग के लिए सहायक अभियंता (याँत्रिक) एवं कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) का पद।
2.	सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी	सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी के लिए अधीक्षण अभियंता का पद।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,  
राज किशोर प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1013-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>